

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 1981/फाल्गुन 15, 1902
No. 96] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 1981/PHALGUNA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

शांतिमय मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1981

क्र. आ. 149 (अ).—अखबार की कार्रवाई नियंत्रण आदेश, 1962 सं. सी. एच.
(1)-18 (1)/62 दिनांक 17 जनवरी 1962 के खंड 2 के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार श्री एम्. वी. एम्. साम्बो, उप प्रस रजिस्ट्रार,
भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई
दिल्ली को उस आदेश के अधीन नियंत्रक की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद्-
द्वारा तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है।

2. उक्त आदेश के अधीन नियंत्रक के रूप में श्री आर. सी. डे, उप प्रस
रजिस्ट्रार की नियुक्ति में सम्बन्धित इस मंत्रालय की पहली की अधिसूचना सं. का.
आ. 122(अ) दिनांक 20 फरवरी, 1978 एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[फा सं. 13(7)/81-गफ. टी. (कोआर्ड)]

टी एस. आर. सूत्रमणियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 1981

S.O. 149(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-clause (b) of clause 2 of the Newsprint Control Order, 1962, No. CH(1)-18(1)/62 dated the 17th January, 1962, the Government of India are hereby pleased to appoint Shri S. V. S. Sastry, Deputy Press Registrar, Office of the Registrar of News papers for India, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, to exercise powers of the Controller under the order, with immediate effect.

2. The Ministry's earlier Notification No. S.O. 122(E) dated 20th February, 1978 relating to the appointment of Shri R. C. Dey, Deputy Press Registrar, as Controller under the said Order is hereby cancelled.

[F. No. 13/7/81-FT(Coord)]

T. S. R. SUBRAMANIAM, Jt. Secy.